

विजेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति, ब्रह्मपुक
जी: २-२२-छत्तीसगढ़ गजट/३४ सि. से.
भिलाई, दिनांक ३०-५-२००१।"



पंजीयन क्रमांक ८८४०३४४८/८५/
तक. ११४-००९/२००३/२० ०१-०३

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक २१-स]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक ३१ जनवरी २००८—माप ११, शक १९२९

रकूल शिक्षा विभाग

मंडालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक ३१ जनवरी २००८

अधिसूचना

क्रमांक एफ ६-२/०८/२०।—सञ्च आसन एवं द्वारा प्रदेश में डाइट/बी. टी. आई./महाविद्यालयों/संस्थाओं में हितोन्नय डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नियमित नियम बनाता है, अर्थात् :—

१. संक्षिप्त नाम, पारंभ तथा विस्तार —
 - (१) इन नियमों का नाम छत्तीसगढ़ डी. एड. प्रवेश नियम २००७ होगा।
 - (२) यह छत्तीसगढ़ सभ्य के राष्ट्रीय शासकीय एवं निजी डी. एड. पाठ्यक्रम रांचालित करने वाले संस्थाओं पर लागू होगा।
 - (३) यह अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।
२. परिचयादृ — इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अधिष्ठित न हो —
 - (क) "राष्ट्रीय आसन" से गत्वा है, छत्तीसगढ़ शासन,
 - (ख) "श्रेणी" से गत्वा है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वा अन्य गिञ्ज़ा कर्म (श्रीभीलेश को छोड़कर)
 - (ग) "संक्षर्ता" से गत्वा है, पहिला, निःशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वा भूतपूर्व सैनिक,
 - (घ) "प्री डी. एड. परीक्षा" से गत्वा है, डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा,

- (इ) "संचालक" से तात्पर्य है, संचालक राज्य श्रीमंति अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
- (ब) "अनुदान प्राप्त संस्था/महाविद्यालय" से तात्पर्य है, ऐसा संस्था/महाविद्यालय जिसमें कभी भी राज्य शासन से किसी गोपनीय का अनुदान, अथवा चल-अचल संपत्ति को कोई सहायता प्राप्त की हो, और "गैर अनुदान प्राप्त संस्था/महाविद्यालय" का तात्पर्य भी इसी अनुसार निकाला जाएगा,
- (च) "गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्था/महाविद्यालय" से अभिप्रेत है कि ऐसे संस्था/महाविद्यालय जो छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रमाणित हो तथा महाविद्यालय के न्यूनतम 50 प्रतिशत सीट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आवधित हो,
- (ज) "डाइट" से तात्पर्य निला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं "बी. टी. आई." का तात्पर्य बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है,

3. डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश —

- (क) ग्री. डी. एड. परीक्षा :— सामान्यतया डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश ग्री. डी. एड. परीक्षा की ग्राहीण्य रूपी के आधार पर की गई काउंसिलिंग के पात्राम से ही किया जायेगा।
- (ख) मूल नियारौ :— यसके सारांशी तथा शासकीय अनुदान प्राप्त डाइट/बी. टी. आई./महाविद्यालयों/संस्थाओं में डी. एड. पाठ्यक्रम को राष्ट्र सीटों पर तथा निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/महाविद्यालयों में 80 प्रतिशत सीटों पर केवल छत्तीसगढ़ के मूल नियारौ को ही प्रवेश दिया जाएगा। निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/महाविद्यालयों की 20 प्रतिशत सीटों पर छत्तीसगढ़ के मूल नियारौ के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के मूल नियारौ की परिभूति छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन नियाम द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।
- (ग) असु स्थोमा :— डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश न्यूनतम असु ग्री. डी. एड. परीक्षा वर्ष की 01 जुलाई को 17 वर्ष से तथा अधिकतम अग्र 33 वर्ष से अधिक सीटों होगी। अनुपूर्णित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं संवर्ग को अधिकारियों के लिए अधिकतम आगु में कूट छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन नियाम द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।

4. ग्री. डी. एड. परीक्षा में सम्पादित होने की अहंताएँ — डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित अहंताएँ होंगी—

- (क) भारत का नामांकित हो,
- (ख) हायर सेकेन्डरी (कक्षा 12वीं) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो, अनुगृहित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संवर्ग के अधिकारियों के लिए गोंदों में 5 प्रतिशत कूट की व्यवस्था होगी। ऐसे अधिकारियों को जो 1/2 परीक्षा में बैठे हैं ग्री. डी. एड. परीक्षा में पेंडी जनजाति प्रवेश दिया जाएगा। परन्तु उन्हें काउंसिलिंग के समय +2 परीक्षा उत्तीर्ण का प्रयाण प्रयत्न करना होगा।
5. डी. एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण — डी. एड. पाठ्यक्रम के उपलब्ध सीटों में वार्टिकल तथा शैक्षिक देसों प्रकार का आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए ब्रेंडिंग होगी, तथा शैक्षिक आरक्षण के लिए संवर्ग होगे।
- (क) वर्टिकल आरक्षण अथवा ब्रेंडी-वर्टिकल आरक्षण नियामनुसार होगा —
- (एक) अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत,
- (तीस) अन्य पिछड़ा वर्ग (ब्रीमीलैयर को छोड़कर) के लिए 14 प्रतिशत,
- (तीव्र) अनुसूचित जनजाति के लिए 21 प्रतिशत,
- (सीन) अन्य पिछड़ा वर्ग (ब्रीमीलैयर को छोड़कर) के लिए 14 प्रतिशत,

आरक्षण — अनुपूर्णित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ब्रीमीलैयर को छोड़कर) ब्रेंडिंग में आरक्षण का साथ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन नियाम द्वारा इन ब्रेंडिंगों के उत्तर प्राप्ति के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप जाति प्रणाली-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (ख) धैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों को सीटों पर समान रूप से होगा। धैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा—
- (एक) निःशक्त संवर्ग के लिए 6 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रस्ताव-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (दो) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग श्रेणी के लिए 3 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनका पुत्र/पुत्री/जीव/जीवी होने का प्रसारण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रसारण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (चार) महिला संवर्ग के लिए 30 प्रतिशत।
- (ग) शासकीय और अनुदान प्राप्त डाइट/बी. टी. आई. में यांत्रित एवं विज्ञान समूह के लिए कम से कम 50% स्थान आरक्षित होगा। ये स्थान अन्य समर्त समूह जैसे कला, चारित्र्य, कृषि, यूह विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, ललित कला इत्यादि के लिए होंगे। किसी एक समूह के पर्याप्त अध्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में किसी अन्य समूह के अध्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- (घ) उपरोक्त आरक्षण निधान और अनुदान अल्पसंखक संस्थाओं/महाविद्यालयों एवं गर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/महाविद्यालयों में साझा नहीं होगा।
6. प्री डी. एड. परीक्षा—
- (क) प्रतिवर्ष डी. एड. प्राद्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्री डी. एड. परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- (ख) एन्य शासन आदेश द्वारा प्री डी. एड. परीक्षा आयोजित करने की एजेंसी नियुक्त करेगा। एन्य शासन किसी भी समय इसे हेतु किए गए आदेश द्वारा एजेंसी बदल सकेगा।
- (ग) प्री डी. एड. परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होगा। अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा—
1. सामान्य मानविक योग्यता 30 प्रतिशत
 2. सामान्य ज्ञान 20 प्रतिशत
 3. शिक्षण अभियाचि 30 प्रतिशत
 4. सामान्य हिन्दी 10 प्रतिशत
 5. सामान्य अंग्रेजी 10 प्रतिशत
- (घ) केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।
- (ङ) नियोनिक मार्किंग नहीं होगा।
- (च) प्री डी. एड. परीक्षा में पुनर्गत्याकृत तथा अंकों की पुनर्गणना नहीं की जाएगी।
7. प्रावीण्य सूची— प्री डी. एड. परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा लेने वाली एजेंसी द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुपूर्णित जन-जाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (ब्राह्मीलेश की छोड़का) श्रेणी तथा अनुरक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक प्रावीण्य सूचियाँ तैयार की जायेंगी, अनुरक्षित श्रेणी को प्रावीण्य सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य, सभी जातिये वर्गों शामिल किया जाएगा। प्रावीण्य सूचियाँ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों तथा अन्य अध्यर्थियों के लिए पृथक-पृथक बनाई जाएंगी। प्रावीण्य सूची में अध्यर्थी का वर्ग भी अंकित किया जायेगा। समान प्राप्तांक होने पर अधिक आनु वाले अध्यर्थी को प्रावीण्यता क्रम में ऊपर रखा जाएगा।

8. कार्डिसिलिंग—

(क) प्राचीण सूची के प्रकाशन के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश देने के लिए कार्डिसिलिंग की जाएगी।

(ख) कार्डिसिलिंग संचालक द्वारा की जाएगी, कार्डिसिलिंग के समय प्रदेश में ही, एड, पाठ्यक्रम संचालित करने वाली सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

(ग) संचालक प्राचीण सूची में शामिल अध्यर्थियों को त्वयं के लिये पर कार्डिसिलिंग के लिए समाचार पत्र के माध्यम से आमंत्रित करेंगे।

(घ) कार्डिसिलिंग के लिए उपस्थित सभी अध्यर्थियों को प्रतीक्षा कक्ष में बैठाया जाएगा, जहाँ उनके मूल प्रमाण-पत्रों की जांच की जाएगी केवल मूल प्रमाण-पत्रों की जांच में अहं पाए गए अध्यर्थियों को ही कार्डिसिलिंग में भाग लेने की अनुमति होगी।

(ङ) अध्यर्थियों के अतिरिक्त केवल एक ल्यक्ति को प्रतीक्षा कक्ष/जांच कक्ष/कार्डिसिलिंग कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी।

(च) संचालक के आदेशों का सभी अध्यर्थियों को पालन करना होगा, अन्यथा उनके कार्डिसिलिंग के अध्याप्य घोषित किया जा सकेगा।

(झ) कार्डिसिलिंग के लिए कार्डिसिलिंग कक्ष में अध्यर्थियों को प्राचीणता के क्रम से प्रवेश दिया जाएगा।

(ज) कार्डिसिलिंग के समय अध्यर्थी को उपलब्ध संस्था/महाविद्यालय तथा उपलब्ध सीटों के प्रकार की जानकारी दी जाएगी, अध्यर्थी को मात्र एक डाइट/बी. टी. आई./महाविद्यालय/संस्था में फोस जमा करने के लिए एक साहाय्य समय दिया जाएगा, अन्यथा उनके कार्डिसिलिंग के लिए निर्धारित प्रपत्र में लिखकर देना होगा। एक बार सीट चयन कर लेने के बाद अध्यर्थी को अपना चयन बदलने की अनुमति नहीं होगी।

(झ) अध्यर्थी के द्वारा चयनित सीट पर उसे तत्काल प्रवेश दिया जायेगा और उसके मूल प्रमाण-पत्र जमा करा लिए जाएंगे, अध्यर्थी को संबंधित डाइट/बी. टी. आई./महाविद्यालय/संस्था में फोस जमा करने के लिए एक साहाय्य समय दिया जाएगा, समय पर फोस जमा न करने वाली स्थिति में प्रवेश स्वयमेव निरस्त माना जाएगा और वह सीट प्राचीण सूची में अगले क्रम के अध्यर्थी को दी जा सकेगी।

(ञ) कार्डिसिलिंग निम्नलिखित क्रम से की जाएगी— पहले छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए कार्डिसिलिंग की जाएगी, इसमें केवल उन्हीं अध्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिनके नाम छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों की प्राचीण सूची में हैं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों की कार्डिसिलिंग पूरी होने के पश्चात् अन्य अध्यर्थियों की कार्डिसिलिंग की जाएगी, कार्डिसिलिंग के समाप्त छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अध्यर्थियों को निम्नलिखित क्रम से कार्डिराइंग के लिए नुकाया जाएगा—

(एक) अनारक्षित श्रेणी

(दो) अनुरूपित बनजाति श्रेणी

(तीन) अनुसृचित जाति श्रेणी

(चार) अन्य पिछड़ा वर्ग (बीमोलेपर को छोड़कर) श्रेणी

इनके बाद अन्य अध्यर्थियों को कार्डिसिलिंग के लिए नुकाया जायेगा।

(ट) किसी भी अनारक्षित श्रेणी के अध्यर्थी को जिसका नाम अनारक्षित श्रेणी की प्राचीण सूची में भी हो, कार्डिसिलिंग के समय उपलब्ध अपनी श्रेणी के लिए आरक्षित सीट अथवा उपलब्ध अनारक्षित सीट में से कोई एक सीट चुनने का विकल्प होगा, चयनित विकल्प अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(उ) कार्डिसिलिंग के समय में किसी भी विवाद में संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

(ऋ) कार्डिसिलिंग के समय उमीदवार आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों तथा 300/- रु. (अधरी तीन हाँ रुपये पात्र) के ऐलाकित श्रेणी ड्राइट, संगालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नाम से रायपुर में देश के सभी उच्चार्थग्राहक होंगे।

9. आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश — आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन संवर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी की अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
10. आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश — किसी भी आरक्षित श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा—
- (क) अनुसूचित जाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (ख) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (ग) अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी दोनों के ही पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन श्रेणीयों के लिए आरक्षित सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेवर को छोड़कर) श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (घ) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेवर को छोड़कर) श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से और इसके बाद भी सीटें रिक रहने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (ङ) सभी आरक्षित श्रेणीयों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में ही आरक्षित सीटें अनारक्षित की जायेंगी।
11. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश — इन नियमों में जो सीटें छत्तीसगढ़ के मूल निवासीयों से ही भरी जाना अनिवार्य है, उन सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में यह सीटें भी अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकेंगी, परंतु यह नियम केवल निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं एवं गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंखक संस्थाओं में लागू होगे।
12. प्रवेश का निरस्तीकरण — यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए किसी जूनी गा. गलत पूछना का आधार या अधिक उसने कोई प्रारंभिक तथा लुप्ताया या, अधिक प्रवेश के बाद की अलपि में यह पता चलता है कि उसे किसी त्रुटि अथवा चूक के कारण प्रवेश गिल गया या तो ऐसी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्यक्ष की अतापि में चिना विद्यो पूर्ण रूपना के संस्था प्राप्तु द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। प्रवेश को लेकर किसी भी विवाद अधिक संदेह की रिश्ति में राज शासन का निर्णय अंतिम होगा।
13. संस्था/महाविद्यालय की फीस — सभी संस्थाओं/महाविद्यालयों को इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य नियमों के अधीनी होते हुए अपनी फीस निर्धारित करने का अधिकार होगा।
- परंतु यह कि महाविद्यालय अपनी फीस इस प्रकार निर्धारित करेंगे, कि फीस अल्पसंखक लाभ कमाने का ज़रिया न बन जाए। फीस का निर्धारण महाविद्यालयों को अपनी अधोसंचानाओं एवं धनव संसाधनों पर किए जाने वाले व्यय के अनुरूप करना होगा तथा वे इसको एक लेखा परीक्षित विवरणी राज्य शासन को सौंपेंगे तथा सार्वजनिक रूप से आम जनता की सूचना के लिए प्रवेश के कम से कम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करेंगे।
- परंतु यह भी कि संस्थाओं/महाविद्यालयों को, प्री. बी. एड. परीक्षा का प्राप्तेकूप छापने के पूर्व अपनी फीस प्रै. डी. एड. परीक्षा एजेंसी तथा राज्य शासन को लिखित में सूचित करनी होगी, ताकि फीस की जानकारी प्राप्तेकूप में छापी जा सके।
- परन्तु यह भी कि एक बार किसी अभ्यर्थी को प्रवेश देने के पश्चात् उस अभ्यर्थी के लिए फीस बढ़ाई नहीं ज्ञासकेगी।
14. नियमों की व्याख्या — प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिए राज्य शासन अंतिम रूप से प्राप्तिकारी होगा। यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशांस्त्राट,

नंद कुमार शासिन,

छत्तीसगढ़ राजप्रश्न, दिनांक 31 जनवरी 2008

रायगढ़, दिनांक 31 जनवरी 2008

क्रमांक एफ 6-2/08/20.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6-2/08/20, दिनांक 31-01-2008 का अंग्रेजी अनुवाद सञ्चयालय के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के गुज्याल के नाम से तथा आंदेशनुसार,
नंद कुमार, सचिव।

Raipur, the 31st January 2008

NOTIFICATION


No. F 6-2/08/20.—State Government hereby makes the following rules for admission to the 2 yearly D. Ed. Course in DIET/B.T.I./Colleges/Institutes in the state, namely :—

1. **Short name, commencement and extent**— These rules shall be called Chhattisgarh D.Ed. Pravesh Rules 2008. They shall extend to all the Government and private institutes of Chhattisgarh which run D. Ed. course. They will come into force with effect from the date of their publication.
2. **Definition**— In these rules unless the context otherwise requires—
 - (a) "State Government" means, Government of Chhattisgarh.
 - (b) "Category" means, unreserved, Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Excluding creamy layer).
 - (c) "Class" means, Women, Disabled, Freedom fighter and Ex-Army.
 - (d) "Pre D. Ed. Examination" means, the competitive Examination organized for admission to D. Ed. course.
 - (e) "Director" means, Director State Council for Educational Research and Training.
 - (f) "Government Aided institute/College" means, a College, which has at any time received any grant-in-aid or any help in the nature of moveable or immoveable property from the State Government accordingly, and the term "unaided college" shall be construed accordingly.
 - (g) "Unaided Minority institute/college" means, a college, which is certificate by the Chhattisgarh State Minority Commission and reserves minimum 50 percent seats for religious minority community.
 - (h) "DIET" means, Distt. Institute of Education & Training and 'B.T.I' means Basic Training Institute.

Admission to D. Ed. Course—

- (a) **Pre-D. Ed. Examination**— Generally admission to D. Ed. Course will be given only through of counseling conducted on the Basis of the merit list of Pre-D. Ed. Examination.
- (b) **Bona-fide Resident**— Bona-fide residents of Chhattisgarh will be given admission on 11 the seats of D. Ed. Course in Government and Government aided DIET/B.T.I./Colleges/Institutes state and on 80% seats of D. Ed. Course in private unaided College in the state. On 20% seats of D. Ed. Course in private unaided Colleges/Institutes in the state admission may be given to persons other than Bona-fide residents of Chhattisgarh. The definition of Bona-fide resident of Chhattisgarh will be according to the instruction issued from time to time by the General Administration Department, Government of Chhattisgarh.

मुग्धल एसी डीए
नहरे अपार्टमेंट कमांक
2-22 उत्तोलन पार्किंग सेक्टर
दिनांक 30-5-2001।



राजस्व विभाग
राजस्व विभाग

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 112]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 अप्रैल 2010—वैत्र 11, शक 1932

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-02/20-एक/2008.—विभागीय समसंबंधक अधिसूचना दिनांक 31-01-2008 द्वारा छत्तीसगढ़ डी.एड. प्रवेश नियम 2007 बनाया गया है। उक्त नियम में राज्य शासन एवं द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

- नियम 2 के उपनियम (ज) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाय—
(झ) “ऑनलाइन आवंटन” से अभिप्रेत है कि प्री.डी.एड. परीक्षा प्रावीण्य सूची के ऐसे उम्मीदवार जो डी.एड. पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अंहताएं रखते हैं तथा उन्हें अनुमान है कि उन्हें डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु संस्था/महाविद्यालय आवंटित हो सकता है, विकल्प फार्म भरने हेतु निर्धारित केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को प्री.डी.एड. परीक्षा प्रावीण्यता, संस्था/महाविद्यालय में रिक्त सीटों तथा उनके द्वारा भरे गये संस्थाओं/महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर संस्था/महाविद्यालय का आवंटन किया जाता है।
- नियम 3 के उपनियम (क) को विलोपित कर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किये जायें—
(क) प्री.डी.एड. परीक्षा-सामान्यतया डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री.डी.एड. की प्रावीण्य सूची के आधार पर किए गए ऑनलाइन आवंटन के माध्यम से दिया जायेगा।
- नियम 4 के उपनियम (ख) में काउंसिलिंग शब्द के स्थान पर “ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने” स्थापित किया जाये।

5. नियम 8 के अन्तर्गत (क) विवरण के बाद इसके लिए जिले का नियम प्रतिशत लिखें।
 (क) नियम जारीकरने अथवा छोड़ने के कल आवंटन में जिले सभी संस्थाओं का नाम अनुसंधान करने के लिए एक अन्य प्रिलड़े बांध (जिलोंपर दो छोड़कर) का नियम आवंटन का प्रतिशत जिले का नाम अनुसंधान करने का अनुसार होगा।

इसके लिए अभ्यर्थी जिस जिले के डी. पट. संस्था में प्रवेश लेना चाहता है, उसी जिले का नियमी अथवा उसी जिले से बाहरी कक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

आवंटन सूची जिलेवार जारी होगी, यदि किसी डाइट/बी.टी.आई. में आवंटन के पश्चात् सीट रिक्त रह जाती है तो उसे अन्य जिले के अभ्यर्थियों से प्राप्तिष्ठान के आधार पर भरी जा सकेगी, नये जिले जिसमें डाइट/बी.टी.आई. उपलब्ध नहीं है, के अभ्यर्थी अपने पूर्व जिले की डाइट/बी.टी.आई. के लिए आवेदन कर सकेंगे।

6. नियम 8 एवं उसके समस्त उपनियमों को विलोपित कर निम्नलिखित नियम व उपनियम प्रतिस्थापित किये जाए—
 8. ऑनलाइन आवंटन—
 (क) प्रावीण्य सूची की घोषणा के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश ऑनलाइन आवंटन विधि से किया जावेगा।
 (ख) ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों तथा 300/- रु. (अक्षरी-रीन सौ रुपये मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट, संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के नाम से रायपुर में देय के साथ निर्धारित केन्द्र में स्वयं के व्यय से उपस्थित होंगे। इन केन्द्रों में अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की प्रारंभिक जांच होगी।
 (ग) ऑनलाइन फार्म भरने की सूचना एवं केन्द्रों की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट तथा राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे।
 (घ) अभ्यर्थी केवल उन्हीं संस्थाओं/महाविद्यालयों का विकल्प चुने जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं।
 (ङ) अभ्यर्थीयों को संस्था/महाविद्यालय का आवंटन उसके द्वारा दिये गये ऑनलाइन विकल्प (संस्था को दी गई प्राथमिकता) प्री.डी.एड. परीक्षा में उसका प्रावीण्यता क्रम तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर संचालक द्वारा किया जायेगा।
 (च) सीट आवंटन की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट पर तथा जिस केन्द्र में अभ्यर्थी ने विकल्प फार्म भरा है उसी केन्द्र पर उपलब्ध होगी, सीट्स आवंटन की सूचना डाक द्वारा अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।
 (छ) ऑनलाइन आवंटन के पश्चात् निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी या तो आवंटित संस्था में जाकर प्रवेश ले अथवा अपना आवंटन निर्धारित कालावधि समाप्त होने के पहले निरस्त करकर नया विकल्प फार्म उसी केन्द्र में जहां पहले फार्म भरा था, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित राशि पुनः जमा करनी होगी अन्यथा ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी का संस्था/महाविद्यालय आवंटन निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्वयंमेव निरस्त हो जायेगा तथा उस अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में समिलित नहीं किया जायेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को रिक्त सीटों के लिए संस्था/महाविद्यालय आवंटन अगली सूची जारी करते समय किया जावेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने का यह अवसर केवल एक बार के लिए होगा।
 (ज) संस्था/महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचवार प्रवेश दिया जायेगा, अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि गई जाती है तो उसका यथान निरस्त वर दिया जायेगा। ऑनलाइन आवंटन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 नंदकुमार, सचिव,

भन्नमुळे ।

[३४ लिखा ८०८]

जिलेवार अनुसरण का प्रतिशत

क्र.	जिले का नाम	संचयित डाइट/बी.टी.आई.	सामाजि- क समूह	आपराधिक वर्ग प्रतिशत	अनुसूचित जाति	अनुगृहित जनजाति	अन्य गिलड़ा वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	सरयुजा	आम्बिकापुर	25	06	55	14	
2.	कोरिया	कोरिया	25	06	55	14	
3.	विलासपुर	पेण्ड्रा, बी.टी.आई. विलासपुर	43	19	24	14	
4.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर	43	19	24	14	
5.	कोरबा	कोरबा	43	19	24	14	
6.	रायगढ़	धर्मजयगढ़	25	12	49	14	
7.	जशपुर	जशपुर	25	12	49	14	
8.	राजनांदगांव	खैरगढ़, बी.टी.आई. डोंगरगांव	49	11	26	14	
9.	कबीरधाम	कबीरधाम	49	11	26	14	
10.	दुर्गा	बेमेतरा	60	13	13	14	
11.	रायपुर	रायपुर	52	15	19	14	
12.	धमतरी	नगरी	52	15	19	14	
13.	महासमुंद	महासमुंद	52	15	19	14	
14.	बस्तर	बस्तर	12	06	68	14	
15.	कांकेर	कांकेर	12	06	68	14	
16.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	12	06	68	14	

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 6-2/2008/20-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-04-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुराग,
नंदकुमार, सचिव।

(2)

13

Dated : 1st April, 2010

Raipur, the 1st April, 2010

NOTIFICATION

No. F 6-02/20-1/2008.— Chhattisgarh D.Ed. Pravesh Rule 2007 is made by even number departmental Notification date 31-01-2008. State Government hereby makes the following amendment in the above rules, namely :

AMENDMENT

1. After sub-rule (h) of Rule-2 the following sub-rule is established :—
 - (i) Online Allotments means such candidates in the merit of Pre D.Ed. Examination who fulfill all prescribed qualifications for admission to D.Ed. courses and who expect to get admission to D.Ed. Courses in a College or Institute, fill Online Option forms at the prescribed centres, such Candidates shall be given admission on the basis of merit of Pre D.Ed. Examination, vacant seats in the Institute/College and their options.
2. Following sub-rule is established by deleting Sub-rule (a) of rule 3.
 - (a) Pre D. Ed. Exam-Generally admission to D. Ed. courses will be given through online seat allotment on the basis of merit list of Pre D. Ed. examination.
3. Filling online option forms should be substituted in place of Counseling, in sub-rule (b) of rule 4.
4. Rule 5, sub-rule (a) is deleted and substituted by—
District wise reservation will be applicable in vertical reservation or categories reservation.

This means that the percentage of reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (excluding Creamy layer) will be as per the district wise reservation Schedule-I.

For this it will be compulsory for the candidates to be either a resident of the district or should have passed class 12 from the district.

The allotment list will be declared district wise. If same seats lie vacant in a DIET or BTI they will be filled by candidates of other districts on the basis of merit. The candidates from the newly formed districts where no DIET/BTI exists can apply for admission to the DIET/BTI of the former districts.

5. The rule 8 and all its sub-rules are deleted and the following rules and sub-rules are established.
 8. **Online allotment**
 - (a) After the declaration of merit list the admission to the institutions shall be done according to online allotment procedure.
 - (b) The candidates will be present at the prescribed centres with all the original documents and a crossed Bank Draft for Rs. 300.00 (Rs. Three Hundred only) Payable to Director, State Council of Educational Research and Training, Raipur. Initial scrutiny of the documents will be done at the centres.
 - (c) The information for filling online options forms will be published in two leading newspapers of the state and also on the SCERT website.
 - (d) Applicants should opt for only those institutions where they intend to seek admission.
 - (e) The allotment of institutions/colleges will be done by the Director on the basis of their online option, (preference given to the institutions), merit list of Pre D.Ed. examination and the availability of seats.
 - (f) The seat allotment list will be available on SCERT website and at the centres where the candidate has filled option forms. No postal communication will be sent to candidates regarding the allotment of seats.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 मई 2023 — वैशाख 20, शक 1945

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-2/2008/20-एक.— विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-01-2008 द्वारा छत्तीसगढ़ डी.एड प्रवेश नियम 2007 बनाएं गये हैं, इस नियमों में राज्य शासन द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2010 को संशोधन किये गए हैं। इस संशोधित नियम के उपनियम 5 (क) में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. नियम 5 के उपनियम (क) को विलोपित कर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित करता है—
(क) डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण प्रवेश के समय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विधिवत् निर्धारित आरक्षण के अनुसार होगा।
2. नियम 5 के उपनियम (घ) को विलोपित कर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित करता है—
(घ) उपरोक्त आरक्षण नियम गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं/महाविद्यालयों में लागू नहीं होगें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 10th May 2023

NOTIFICATION

No. F 6-2/2008/20-1.— Chhattisgarh D. Ed. Parvesh Rules 2007 is made by even department notification date 31-01-2008. In these rules, amendments have been made by the State Govt on 01 April 2010. The amended sub- rule 5 (a) of this rule is here by amended by the state government, namely : -



AMENDMENT

1. Following sub- rule is substituted by deleting sub-rule 5(a).
 - (a) Reservation of seats in D. El. Ed. course will be according to the duly prescribed reservation in admission to educational institutions by the Government of Chhattisgarh at the time of admission.

2. Following sub- rule is substituted by deleting sub-rule 5(d).
 - (d) The above reservation rules will not be applicable in non- aided minority institutions/ colleges.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TIRATH PRASAD LADIYA, Deputy Secretary.

अटल नगर, दिनांक 10 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-5/2006/20-एक.— विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 अप्रैल 2006 द्वारा छत्तीसगढ़ बी.एड. प्रवेश नियम 2006 बनाएं गये हैं, उक्त नियम में राज्य शासन एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

1. नियम 5 (क) को विलोपित कर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित करता है—
(क) बी.एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण प्रवेश के समय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विधिवत निर्धारित आरक्षण के अनुसार होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 10th May 2023

NOTIFICATION

No. F 5-5/2006/20-1.— Chhattisgarh B. Ed. Parvesh Rule 2006 is made by even department notification date 20-04-2006. State Government here by makes following amendment in the above rules, namely: -

AMENDMENT

Following sub- rule is substituted by deleting sub-rule 5(a).

(a) - Reservation of seats in B.Ed.course will be according to the duly prescribed reservation in admission to educational institutions by the Government of Chhattisgarh at the time of admission.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TIRATH PRASAD LADIYA, Deputy Secretary.